



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 4—जून 10, 2011 (ज्येष्ठ 14, 1933)

No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 4—JUNE 10, 2011 (JYAISTHA 14, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

## [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by  
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई, दिनांक 5 मई 2011

श.बै.वि. बीएसडी. (II) 2/12.29.047/2010-11--भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि दि. सिद्धेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., माजलगाव, बीड बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहाकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 36ए(2) के प्रावधानों के अधीन बैंकिंग कारोबार समाप्त कर सकते हैं तथा वे सहकारी बैंक द्वारा स्वीकृत सभी जमाओं को पूर्णतः या प्राप्य अधिकतम मात्रा में चुकाया है या चुकाने हेतु समुचित प्रावधान किए हैं, इस कारण से यह अधिसूचित किया जाता है कि अधिनियम के आशय के अनुसार दि. सिद्धेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., माजलगाव, बीड अब सहकारी बैंक नहीं रहे तथा आगे इस प्रकार के सहकारी बैंकों पर अधिनियम के अंतर्गत लागू सभी प्रावधान उक्त पर लागू नहीं होंगे, लेकिन यह इस प्रकार के नोटिस देने से पूर्व किए गए कार्यों तथा करने के लिए छोड़े हुए कार्यों के सिवाय हैं।

एस. करुणसामी  
कार्यपाल निदेशक

भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई, दिनांक 10 मई 2011

क्र. एसबीडी 2/2011-12--एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा

25, उप धारा (1) के अनुच्छेद (ग) के अनुसार भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद भारतीय स्टेट बैंक श्री भारत रतन, 310-A, अगर नगर, लुधियाना, को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के निदेशक पद पर तीन वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 15 मई 2011 से 14 मई 2014 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए नामित करता है।

प्रतीप चौधरी  
अध्यक्ष

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 4 मई 2011

सं. 13-सी. ए. (परीक्षा)/आई.एस.ए./जून/2011--चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 (जो अधिसूचना संख्या-1 सी.ए. (7)/59/2001 दिनांक 28 सितम्बर 2001 के द्वारा संशोधित किया गया) के नियम-7 अनुसूची 'एफ' के रेगुलेशन 204 के अनुसार दि. कॉंसिल ऑफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि इनफोरमेशन सिस्टम्स आडिट (आई.एस.ए.) कोर्स की निर्धारित परीक्षा (असेसमेन्ट टेस्ट) दिनांक 18 जून 2011 (शनिवार) को प्रातः 10:30 बजे

से 2.30 बजे सांय तक निम्नलिखित केन्द्रों पर होगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिये पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं।

परीक्षा केन्द्र :--

1. अहमदाबाद
2. अम्बाला
3. ओरंगाबाद
4. बैंगलोर
5. भीलवाड़ा
6. भोपाल
7. भुवनेश्वर
8. वडोदरा
9. बेलगांव
10. चंडीगढ़
11. चेन्नई
12. कोयम्बटूर
13. दिल्ली/न्यू दिल्ली
14. ईरनाकुलम
15. ईरोड
16. गुवाहाटी
17. ग्वालियर
18. गुन्तूर
19. गांधी धाम
20. हैदराबाद
21. इंदौर
22. जयपुर
23. जालन्धर
24. जामनगर
25. कानपुर
26. कोल्हापुर
27. कोलकाता
28. कोटा
29. लखनऊ
30. लुधियाना

31. मदुरई
32. मुम्बई
33. मुजफ्फरनगर
34. नागपुर
35. नासिक
36. पानीपत
37. पूना
38. रायपुर
39. राजकोट
40. रांची
41. सहारनपुर
42. सूरत
43. उदयपुर
44. वाराणसी

परिषद् अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र को किसी भी समय बिना कोई कारण दिये रद्द कर सकती है। यह परीक्षा इंस्टीट्यूट के केवल पात्र सदस्य जोकि पहले से ही पंजीकृत हैं के लिये हैं। इस परीक्षा (असेसमेन्ट औस्ट) के लिये परीक्षा शुल्क 1,000/- (एक हजार रुपये) मात्र हैं।

परीक्षा शुल्क की राशि का भुगतान केवल डिमांड ड्राफ्ट द्वारा होगा जो किसी भी शेड्यूल बैंक का होना चाहिये। डिमांड ड्राफ्ट 'सचिव' दि इंस्टीट्यूट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया के पक्ष में होना चाहिये और उसकी अदायगी नई दिल्ली पर हो। आवेदन पत्र उपयुक्त शुल्क के साथ इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह अपर सचिव (परीक्षा) के कार्यालय में दिनांक 03 जून, 2011 तक पहुंच जायें।

इस परीक्षा के लिये आवेदन निर्धारित आवेदन पत्रों पर ही किया जाना चाहिये जोकि अपर सचिव (परीक्षा), दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया, आईसीएआई भवन, इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110002 से 100/- रुपये प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है। आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के रीजनल और ब्रांचों के कार्यालय में भी उपलब्ध हैं और नकद भुगतान करने पर 15 मई, 2011 से प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू आईसीएआई.ओआरजी से प्रिन्ट करके परीक्षा शुल्क 1100/- रुपये डिमांड ड्राफ्ट के साथ भी भेजा जा सकता है। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 03 जून 2011 है। आवेदन पत्र निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा अपर सचिव (परीक्षा), नई दिल्ली को भेजा जाना है।

दिनांक 03 जून, 2011 के पश्चात् आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

जी. सोमाशेखर  
अपर सचिव (परीक्षा)

दिनांक 6 मई 2011

सं. 13--सी.ए. (परीक्षा)/मई/2011-III--इंस्टीट्यूट के सामानान्तर अधिसूचना नं.-13 सी.ए. (परीक्षा)/मई/2011 दिनांक 12 जनवरी, 2011 सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम परीक्षा (पी.सी.ई.) पेपर-3 ग्रुप-01 और एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम परीक्षा (आई.पी.सी.ई.) पेपर-2 व्यावसायिक नियम, नीति एवं संप्रेषण ग्रुप-1 जोकि दिनांक 05 मई, 2011 को हुआ था उसी संदर्भ में वह छात्र जिन्होंने हिन्दी माध्यम के लिए चुना था परीक्षा रद्द कर दी गई है। कथित परीक्षा को पुनः 17 मई, 2011 को सांय 02.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक परीक्षा केन्द्रों में बिना परिवर्तन करवाया जायेगा। पहले से जारी किया गया प्रवेश पत्र मान्य रहेगा।

जी. सोमाशेखर  
अपर सचिव (परीक्षा)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 4 मई 2011

सं. 1(1)3/2000-स्था. I--कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (1) तथा उप धारा (2) के खण्ड (xxi) तथा उप धारा (2क) तथा धारा 17 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से कर्मचारी राज्य बीमा निगम (निजी सचिव) भर्ती विनियम, 2008 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (निजी सचिव) भर्ती (संशोधन) विनियम, 2011 कहे जायेंगे।
- (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (निजी सचिव) भर्ती विनियम, 2008 की अनुसूची के कॉलम 4 में :-

- (i) शीर्षक के लिए, निम्नलिखित शीर्षक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान”,

- (ii) उक्त शीर्षक के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ग्रेड वेतन रुपये 4,800/- के साथ रुपये 9,300--34,800/- के वेतनमान में वेतन बैंड-2

टिप्पणी : निजी सचिवों को वेतन बैंड-2 में ग्रेड वेतन रुपये 4,800/- के साथ रुपये 9,300--34,800/- के वेतनमान में निजी सचिव के रूप में चार वर्ष की नियमित सेवा को पूरा करने पर वेतन बैंड-3 में ग्रेड वेतन रुपये 5,400/- के साथ रुपये 15,600--39,100/- का अकार्यात्मक वेतनमान स्वीकार्य होगा”।

टिप्पणी : प्रधान विनियम भारत के राजपत्र दिनांक 02 अगस्त, 2008 के भाग-III, खण्ड-4 में अधिसूचित किए गए थे।

सी. एस. केदार  
महानिदेशक

सरकारी राजपत्र के अध्यादेश के संशोधन का प्रकाशन

दिनांक 23.06.2010 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद् की बैठक में कार्यकारिणी परिषद् एवं शैक्षणिक परिषद् से संबंधित विश्वविद्यालय के अधिनियम 11 एवं 13 में पारित संशोधनों को भारत महामहिम राष्ट्रपति ने, राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 30(3) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, राजीव गांधी विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष के अधिकार से, सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अनुसार नये शैक्षणिक परिषद् एवं कार्यकारिणी परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(अ) शैक्षणिक परिषद्

(राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 24(1) एवं (2) के अन्तर्गत)

- (1) कुलपति;
- (2) सम-कुलपति;
- (3) संकायों के संकायाध्यक्ष;
- (4) विभागों के अध्यक्ष;

(5) संकाय के संकायाध्यक्षों एवं विभाग के विभागाध्यक्षों के अतिरिक्त वरिष्ठता क्रम के अनुसार क्रमावर्तन के द्वारा कुलपति द्वारा नियुक्त चार प्रोफेसर;

(6) वरिष्ठता क्रम के अनुसार क्रमावर्तन के द्वारा कुलपति द्वारा नियुक्त दो सह-प्रोफेसर;

(7) वरिष्ठता क्रम के अनुसार क्रमावर्तन के द्वारा कुलपति द्वारा नियुक्त दो सहायक प्रोफेसर;

(8) वरिष्ठता क्रम के अनुसार क्रमावर्तन के द्वारा कुलपति द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के दो प्रधानाध्यापक;

(9) शिक्षा जगत के चार प्रसिद्ध व्यक्ति/शैक्षणिक परिषद् में सहभाजित इनमें से कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या सम्बद्ध महाविद्यालय या संस्थान का कर्मचारी नहीं होगा; एवं

(10) कुल सचिव शैक्षणिक परिषद् के पदेन सचिव होंगे।

नोट :- (अ) कुलपति एवं सम-कुलपति के अतिरिक्त शैक्षणिक परिषद् के अन्य सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।

(ब) शैक्षणिक परिषद् के ग्यारह सदस्यों के द्वारा शैक्षणिक परिषद् की बैठक का कोरम पूरा हो जायेगा।

(ब) कार्यकारिणी परिषद्

(राजीव गांधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 23(1) के अन्तर्गत)

- (1) कुलपति;
- (2) सम-कुलपति;
- (3) वरिष्ठता क्रम के अनुसार क्रमावर्तन के द्वारा कुलपति द्वारा नियुक्त संकायों के दो संकायाध्यक्ष;
- (4) संकायों के संकायाध्यक्षों के अतिरिक्त वरिष्ठता क्रम के अनुसार क्रमावर्तन के द्वारा कुलपति द्वारा नियुक्त दो प्रोफेसर;
- (5) वरिष्ठता क्रम के अनुसार क्रमावर्तन के द्वारा कुलपति द्वारा नियुक्त दो सह-प्रोफेसर;
- (6) कुलाध्यक्ष द्वारा नामांकित न्यायालय के दो सदस्य, जिसमें से कोई भी सदस्य विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या सम्बद्ध महाविद्यालय या संस्थान का कर्मचारी नहीं होगा;
- (7) कुलाध्यक्ष द्वारा नामांकित पांच सदस्य; एवं
- (8) कुल सचिव कार्यकारिणी परिषद् के पदेन सचिव होंगे।

नोट :-- (अ) कुलपति एवं सम-कुलपति के अतिरिक्त कार्यकारिणी परिषद् के अन्य सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।

(ब) कार्यकारिणी परिषद् के सात सदस्यों के द्वारा कार्यकारिणी परिषद् की बैठक का कोरम पूरा हो जायेगा।

हस्ता./- अपठनीय  
रजिस्ट्रार  
राजीव गांधी विश्वविद्यालय  
रोनो हिल्स, ईटानगर

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आवुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग (आयुष), भारत सरकार के अधीन विधिक निकाय

साधारण सूचना

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 के अधीन रखे गए होम्योपैथी के केन्द्रीय रजिस्टर के भाग-2 में अंतर्विष्ट राज्य होम्योपैथी परिषद् उत्तर प्रदेश के सभी भाग-2 के रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा साभ्यासियों को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् रजिस्ट्रीकरण विनियम, 1982 के विनियम 9(1) में यथा उपबन्धित उक्त केन्द्रीय रजिस्टर में अपने नाम बनाए रखने के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन करना होगा।

आवेदन के विहित प्ररूप सहित साधारण सूचनाएं प्रत्येक पंजीकृत चिकित्सा साभ्यासी को उक्त केन्द्रीय रजिस्टर में दर्ज उसके पते पर भेजी जा रही है। केन्द्रीय रजिस्टर में नाम बनाए रखने के प्रारूप 'च' में आवेदन साभ्यासियों द्वारा इस सूचना के जारी किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर सम्यक रूप से भर कर अधोहस्ताक्षरी को लौटा दिया जाना चाहिए कोई भी पंजीकृत साभ्यासी जिसे डाक द्वारा पत्र प्रारूप प्राप्त नहीं हुआ है रजिस्ट्रार, केन्द्रीय परिषद् के कार्यालय केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, 61--65, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली से उसे प्राप्त कर सकता है।

तारीख

स्थान : नई दिल्ली

हस्ता./- अपठनीय

रजिस्ट्रार

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद्

## RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai, the 5th May 2011

No. UBD.CO.BSD-II/2/12.22.693/2010-11—The Reserve Bank of India being satisfied that The Sidheshwar Urban Co-operative Bank Ltd., Majalgaon, Distt. Beed has ceased to conduct banking business and has repaid or has made adequate provisions for repaying all deposits accepted by the Co-operative Bank, either in full or to the maximum extent possible, in terms of the provisions of Section 36A (2) of the Banking Regulation Act, 1949 (As Applicable to Co-operative Societies) hereby notifies that The Sidheshwar Urban Co-operative Bank Ltd., majalgaon, Distt. Beed has ceased to be a Co-operative Bank within the meaning of the Act and thereupon all the provisions of the Act applicable to such co-operative Bank shall cease to apply to it, except as respect things done or omitted to be done before such notice.

S. KARUPPASAMY  
Executive Director

## STATE BANK OF INDIA

Mumbai, the 10th May 2011

No. SBD-2/2011-12—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 25 of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India has, in consultation with Government of India and Reserve Bank of India nominated Shri Bharat Rattan, 310-A, Aggar Nagar, Ludhiana, as a director on the Board of Directors of State Bank of Bikaner & Jaipur for a period of three years from 15th May 2011 to 14th May 2014 (both days inclusive).

PRATIP CHAUDHARI  
Chairman

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 4th May 2011

No. 13-CA(Exam)/ISA/J/2011—In pursuance of Rule 7 of Schedule 'F' to Regulation 204 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 (as amended vide Notification No. 1-CA(7)/59/2001 dated 28th September 2001), the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Information Systems Audit (ISA) Course Assessment Test will be held on 18th June 2011 (Saturday) from 10.30 AM to 2.30 PM at the following cities provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each city as detailed below :—

Sl. No.	Name of the Cities
1	2
1.	Ahmedabad
2.	Ambala

1	2
3.	Aurangabad
4.	Bangalore
5.	Bhilwara
6.	Bhopal
7.	Bhubaneswar
8.	Baroda
9.	Belgaum
10.	Chandigarh
11.	Chennai
12.	Coimbatore
13.	Delhi/New Delhi
14.	Ernakulam
15.	Erode
16.	Gandhidham
17.	Guwahati
18.	Gwalior
19.	Guntur
20.	Hyderabad
21.	Indore
22.	Jaipur
23.	Jalandhar
24.	Jamnagar
25.	Kanpur
26.	Kolhapur
27.	Kolkata
28.	Kota
29.	Lucknow
30.	Ludhiana
31.	Madurai
32.	Mumbai
33.	Muzaffarnagar
34.	Nagpur

1	2
35.	Nasik
36.	Panipat
37.	Pune
38.	Raipur
39.	Rajkot
40.	Ranchi
41.	Saharanpur
42.	Surat
43.	Udaipur
44.	Varanasi

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason. The above Test is open only to eligible Members of the Institute who are already registered with the Institute for the said course. The fees payable for the above Assessment Test is Rs. 1000/-.

Payment of fees for the Assessment Test should be made only by Demand Draft. The Demand Draft may be of any Scheduled Bank and should be drawn in favour of "The Secretary, The Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi" only. Application together with the prescribed fee be sent so as to reach the Additional Secretary (Exams) at New Delhi on or before 3rd June, 2011.

Applications for admission to the Assessment Test is required to be made in the prescribed form which may be obtained from the Additional Secretary (Exams), The Institute of Chartered Accountants of India, ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi-110002 on payment of Rs. 100/- per application form. The forms are also available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained upon cash payment on or from 15th May, 2011. Alternatively, the format of application form can be downloaded from the website of the Institute viz. [www.icai.org](http://www.icai.org) and the cost of the application form of Rs. 100/- can be added to the Assessment Test fee of Rs. 1000/- and the Demand Draft for Rs. 1100/- has to be sent. The last date for receipt of duly filled in application forms is 3rd June, 2011. The application together with the prescribed fee should be sent by Speed Post/Registered Post to the Additional Secretary (Exams.), New Delhi. The applications received after 3rd June, 2011 will not be entertained under any circumstances.

G. SOMASEKHAR  
Addl. Secy. (Exams.)

The 6th May 2011

No. 13-CA (Exam)/M/2011/III—In continuation to the Institute's Notification No. 13-CA (Exam)/M/2011 dated 12th January, 2011, it is notified for the general information that Group-1, Paper-3-Law, Ethics and Communication of Professional Competence Examination and Group-1, Paper-2-Business Laws, Ethics and Communications of Integrated Professional Competence Examination scheduled to be held on 5th May, 2011 in respect of candidates who had opted for Hindi medium stands cancelled. The said examination for the candidates who had opted for Hindi medium will now be held again on 17th May, 2011 (Tuesday) from 2.00 PM to 5.00 PM. The venues of the examinations will remain unchanged. Admit Cards already issued would remain valid.

G. SOMASEKHAR  
Addl. Secy. (Exams.)

#### EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 4th May 2011

No. 1(1)3/2000-Estt. I—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of section 97 and sub-section (2) of section 17 of the Employee's State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby makes, with the approval of the Central Government, the following regulations to amend the Employees' State Insurance Corporation (Private Secretary) Recruitment Regulations, 2008, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Private Secretary) Recruitment (Amendment) Regulations, 2011.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Employees' State Insurance Corporation (Private Secretary) Recruitment Regulations, 2008, in the Schedule, in column 4 :—
  - (i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely :—  
"Pay Band and Grade Pay/Pay Scale";
  - (ii) for the entries under the said heading, the following entries shall be substituted, namely :—  
"Pay Band 2 in the pay scale of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/-.

Note : Non-functional pay scale in Pay Band 3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- shall be admissible to the Private Secretaries on completion of four years of

regular service as Private Secretary in Pay Band-2 in the Pay Scale of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/-”.

Note : The Principal regulations were notified in Part-III, Section-4 of the Gazette of India, dated the 2nd August, 2008.

C. S. KEDAR  
Director General

#### RAJIV GANDHI UNIVERSITY ITANAGAR

#### PUBLICATION OF AMENDMENT TO THE STATUTE IN THE OFFICIAL GAZETTE

Her Excellency, the President of India, in her capacity as the Visitor of Rajiv Gandhi University, in exercise of the powers vested in her under Section 30(3) of the Rajiv Gandhi University Act, 2006, has been pleased to assent to the amendments to Statutes 11 and 13 of the University relating to the Executive Council and the Academic Council respectively as passed by the Executive Council at its meeting held on 23.06.2010. Accordingly, the new Academic Council and Executive Council shall consist of the following members :—

##### (A) ACADEMIC COUNCIL

(Under Section 24(1) and (2) of the RGU Act, 2006)

- (i) Vice-Chancellor;
- (ii) Pro-Vice-Chancellor;
- (iii) Deans of Faculties;
- (iv) Heads of Departments;
- (v) Four Professors, other than Deans of Faculty and Heads of Department, by rotation in the order of seniority, to be appointed by the Vice-Chancellor;
- (vi) Two Assistant Professors by rotation in the order of seniority, to be appointed by the Vice-Chancellor;
- (vii) Two Associate Professors by rotation in the order of seniority, to be appointed by the Vice-Chancellor;
- (viii) Two Principals of the Colleges admitted to the privileges of the University by rotation in the order of seniority to be appointed by the Vice-Chancellor;
- (ix) Four persons of Academic eminence. None of whom shall be an employee of the University or College of Institution affiliated to or recognized by the University, to be co-opted by the Academic Council; and

- (x) The Registrar shall be the Ex-Officio Secretary of the Academic Council.

Note :- (a) All the members of the Academic Council other than the Vice-Chancellor and the Pro-Vice-Chancellor, shall hold office for a term of three years.

- (b) Eleven members of the Academic Council shall form a quorum for a meeting of the Academic Council.

##### (B) THE EXECUTIVE COUNCIL

(Under Section 23(1) and (2) of the RGU Act, 2006)

- (i) Vice-Chancellor;
- (ii) Pro-Vice-Chancellor;
- (iii) Two Deans of Faculties by rotation in order of seniority, to be appointed by the Vice-Chancellor;
- (iv) Two Professors, other than Deans of Faculties, by rotation in the order of seniority, to be appointed by the Vice-Chancellor;
- (v) Two Associate Professors by rotation in the order of seniority, to be appointed by the Vice-Chancellor;
- (vi) Two members of the Court, none of whom shall be an employee of the University or College or Institution affiliated to or recognized by the University, to be nominated by the Visitor;
- (vii) Five persons to be nominated by the Visitor; and
- (viii) The Registrar shall be the Ex-Officio Secretary of the Executive Council.

Note :- (a) All the members of the ~~Executive Council~~, other than the Vice-Chancellor and the Pro-Vice-Chancellor, shall hold office for a term of three years.

- (b) Seven members of the Executive Council shall form a quorum for a meeting of the Executive Council.

Sd/- ELLEGIBLE  
Rajiv Gandhi University  
Rono Hills, Itanagar

## CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

A Statutory Body under the Ministry of Health & Family  
Welfare, Deptt. of Ayurveda,  
Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy  
(AYUSH), Govt. of India

New Delhi-110058

## GENERAL NOTICE

General Notice is hereby given to all the practitioners registered in Part-II with State Homoeopathy Board, Uttar Pradesh, whose names were included in the Central Register of Homeopathy maintained under the Homoeopathy Central Council Act, 1973 that they have to make an application to the Registrar for continuance of their names on the said Central Register as provided in regulation 9 (1) of the Homoeopathy Central Council (Registration) Regulations, 1982 framed under the said Act.

Individual notices alongwith the prescribed form of applications are being sent to every such registered practitioner to the address entered in the said Central Register. An application in Form 'F' for continuation of the name in the Central Register should be returned by such a practitioner to the undersigned duly completed within 30 days of the issue of this notice. Any Registered Practitioner who does not receive the letter/Form by post from Central Council may obtain it from the office of the Registrar. Central Council of Homoeopathy, 61-65, institutional Area, Janakpuri, New Delhi.

Sd/- ELLEGIBLE

Registrar

Central Council of Homoeopathy

Dated :

Place : New Delhi